

Roll No.  
अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--	--

Question Booklet No.  
प्रश्न पुस्तिका क्रमांक

4602

OMR No.  
उत्तर-पत्रक सं०

## बी० कॉम० प्रवेश परीक्षा - 2020

Candidate's Name

परीक्षार्थी का नाम

समय : 2 घण्टे

Candidate's Signature

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

Invigilator's Signature

कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर

अधिकतम अंक : 150

### परीक्षार्थी निर्देशों को भली-भाँति पढ़कर उत्तर-पत्रक को भरें


- इस प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक ओ०एम०आर० (उत्तर-पत्रक) पर अवश्य भरें।
- इस प्रश्न पुस्तिका में 150 प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है।
- आपको सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं (A), (B), (C), (D).
- केवल काला/नीला बाल प्लाइट पेन का प्रयोग करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर अंकित किया जाना है। यदि आप एक से अधिक उत्तर अंकित करते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जायेगा।
- उत्तर अंकित करने के लिए सम्बन्धित एक ही वृत्त पर काला/नीला बाल प्लाइट पेन से पूर्णतया गहरा निशान लगायें जैसा नीचे उदाहरण में दिखाया गया है।  

सही	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
गलत	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- अपना उत्तर केवल उत्तर-पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर ही अंकित करें, उत्तर पत्रक में कहीं अन्यत्र अंकन करने पर उसकी गणना नहीं की जायेगी।
- रफ कार्य के लिए प्रश्न-पुस्तिका में निर्धारित स्थान का प्रयोग करें।
- उत्तर-पत्रक के किसी भी कॉलम को खाली/रिक्त नहीं छोड़ें।
- उत्तर-पत्रक कम्प्यूटर द्वारा मूल्यांकित होगा। आपके उत्तर-पत्रक के सही मूल्यांकन हेतु निर्देशों का पालन अति आवश्यक है। निर्देशों का पालन न करने के परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- उत्तर पत्रक किसी भी स्थान पर न मोड़ें।
- गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा।

- Write the question booklet No. on the OMR Sheet.
  - Question Booklet contains 150 questions, each question has one mark.
  - You have to attempt all the questions. Each question has four option (A), (B), (C), (D)
  - Use Black/Blue Ball point pen only.
  - Each question has one correct answer. In case you darken more than one circle. Your answer will be treated as wrong.
  - Darken only one circle for each question as shown in the example bellow.
- |       |                                  |                                     |                       |                       |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Right | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wrong | <input type="checkbox"/>         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
- Mark your answer in the space provided. Don't make any stray mark on the answer sheet.
  - For rough work use space provided in your question booklet only.
  - Do not leave any column blank in the Answer Sheet.
  - Answer sheet will be evaluated through computer. For correct evaluation strictly follow the instructions, otherwise candidate will be solely responsible.
  - Do not fold or wrinkle the Answer Sheet.
  - There will NOT be any negative marking for wrong answer.

जब तक कक्ष निरीक्षक द्वारा कहा न जाये पुस्तिका को न खोलें

इस प्रश्न पुस्तिका को खोल कर 5 मिनट के अन्दर ही जांच कर देख लें कि सभी पृष्ठ भली-भाँति छपे हुए हैं। यदि कोई त्रुटि हो तो कक्ष-निरीक्षक को सूचित करें और दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लें।



1. It is not merit of Barter System-
- Freedom from slavery
  - Increase in national income
  - Increase in working capacity
  - To be inflation
2. By use of money-
- Capital mobility increase
  - Capital mobility decrease
  - End of capital mobility
  - Capital mobility remain constant
3. The primary function of money is-
- Value measurement
  - Base of credit
  - Transfer of purchasing power
  - Base of future payment
4. "Money is what money does", is said by-
- Crowther
  - Hartley withers
  - Walker
  - Pigue
5. Lesser liquidity is in-
- $M_1$
  - $M_4$
  - $M_2$
  - $M_3$
1. वस्तु विनियम प्रणाली का गुण नहीं है-
- दासता से मुक्ति
  - राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना
  - कार्य शमता में वृद्धि
  - मुद्रा स्थौरि होना
2. मुद्रा के प्रयोग से-
- पूँजी की गतिशीलता बढ़ गई है
  - पूँजी की गतिशीलता घट गई है
  - पूँजी की गतिशीलता समाप्त हो गई है
  - पूँजी की गतिशीलता यथास्थिर है
3. मुद्रा का प्राथमिक कार्य है-
- मूल्य मापन
  - साख का आधार
  - क्रय शक्ति स्थानांतरण
  - भावी भुगतान का आधार
4. "मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे" यह किस अर्थशास्त्री ने कहा था।
- क्राउथर
  - हार्टले विदर्स
  - वाकर
  - पीगू
5. सबसे कम तरलता है-
- $M_1$
  - $M_4$
  - $M_2$
  - $M_3$

6. Standard coins becomes-
- (A) Principal Money
  - (B) Subsidiary Money
  - (C) Paper Money
  - (D) None of above
7. Quantity of pure silver reduce in silver money in India-
- (A) 1940
  - (B) 1950
  - (C) 1920
  - (D) 1930
8. Meaning of managed standard is-
- (A) Metallic standard
  - (B) Goods standard
  - (C) Paper standard
  - (D) Credit standard
9. International Monetary Fund was established in-
- (A) 1945
  - (B) 1940
  - (C) 1935
  - (D) 1930
10. International Depression started in-
- (A) 1915
  - (B) 1920
  - (C) 1929
  - (D) 1938
6. प्रामाणिक सिक्का होता है-
- (A) प्रधान मुद्रा
  - (B) सहायक मुद्रा
  - (C) पत्र मुद्रा
  - (D) इनमें से कोई नहीं
7. भारत में चांदी के रूपए में शुद्ध चांदी की मात्रा घटाई गई-
- (A) 1940
  - (B) 1950
  - (C) 1920
  - (D) 1930
8. प्रबन्धित मुद्रामान से आशय है-
- (A) धातु मुद्रामान
  - (B) वस्तु मुद्रामान
  - (C) पत्र मुद्रामान
  - (D) साख मुद्रामान
9. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई-
- (A) 1945 में
  - (B) 1940 में
  - (C) 1935 में
  - (D) 1930 में
10. विश्वव्यापी मन्दी प्रारम्भ हुई-
- (A) 1915
  - (B) 1920
  - (C) 1929
  - (D) 1938

11. Meaning of value of money-
- (A) From cost of used material in making money
  - (B) Purchasing power of money
  - (C) Value of payment to receive the money
  - (D) Interest rate
12. What is relation between money and credit money according to Fisher's equation-?
- (A) Optimum
  - (B) Unfavourable
  - (C) Fixed
  - (D) Variable
13. Limitations of Grasham's law is-
- (A) Less quantity of money
  - (B) Government policy
  - (C) Development of saving habit
  - (D) None of the above
14. Causes of inflation are-
- (A) Deficit financing
  - (B) Increment of development cost
  - (C) Decrement in production
  - (D) All of the above
15. By increment of Cash Reserve Ratio, the quantity of credit creation is-
- (A) Increased
  - (B) Decreased
  - (C) At first increased and then remain constant
  - (D) Increase regularly
11. मुद्रा के मूल्य का अर्थ-
- (A) मुद्रा निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के मूल्य से है
  - (B) उसकी क्रय शक्ति से है
  - (C) उसको प्राप्त करने हेतु भुगतान किये गये मूल्य से है
  - (D) व्याज की दर से है
12. फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा तथा साख मुद्रा के बीच कौन-सा सम्बन्ध है-
- (A) अनुकूलतम्
  - (B) विपरीत
  - (C) निश्चित
  - (D) परिवर्तित
13. ग्रेशम के नियम की सीमाएँ हैं-
- (A) मुद्रा की कम मात्रा होना
  - (B) सरकारी नीति
  - (C) बचत की आदत का विकास
  - (D) इनमें से कोई नहीं
14. मुद्रा स्फीति के कारण हैं-
- (A) घाटे का बजट बनाना
  - (B) विकास व्यय बढ़ाना
  - (C) उत्पादन में शिथिलता और कमी
  - (D) उपरोक्त सभी
15. नकद कोष अनुपात के बढ़ने पर साख निर्माण की मात्रा-
- (A) बढ़ जाती है
  - (B) गिर जाती है
  - (C) पहले बढ़ती है फिर स्थिर रहती है
  - (D) लगातार बढ़ती जाती हैं

16. SEBI was established in-
- 1980
  - 1985
  - 1987
  - 1988
17. The Note issue system of Reserve Bank is based upon-
- Proportional Reserve
  - Minimum Reserve
  - (A) and (B) both
  - None of these
18. Which Bank was nationalized to create State Bank of India-?
- Bank of Baroda
  - Indian Bank
  - Imperial Bank
  - None of these
19. Micro economics is-
- Price theory
  - Consumer theory
  - Distribution theory
  - None of these
20. Which is basic problems of an economy?
- Allocation of resources
  - Use of efficient resources
  - Economic development
  - All of the above
16. सेबी का गठन कब हुआ?
- 1980
  - 1985
  - 1987
  - 1988
17. रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा निर्गमन की प्रणाली आधारित है-
- आनुपातिक कोष
  - न्यूनतम कोष
  - (A) और (B) दोनों
  - उपर्युक्त में से कोई नहीं
18. स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना के लिए किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया-?
- बैंक आफ बड़ौदा
  - इंडियन बैंक
  - इंपीरियल बैंक
  - उपर्युक्त में से कोई नहीं
19. व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को कहा जाता है-
- कीमत सिद्धान्त
  - उपभोक्ता सिद्धान्त
  - वितरण सिद्धान्त
  - उपर्युक्त कोई नहीं
20. अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं कौन-सी हैं?
- साधनों का आवंटन
  - साधनों का कुशलतम उपयोग
  - आर्थिक विकास
  - उपर्युक्त सभी

21. Bat and ball is example of which demand-
- (A) Joint demand  
(B) Complementary demand  
(C) Derived demand  
(D) None of these
22. Internal economies of scale is-
- (A) Technical economies  
(B) Economies of centralisation  
(C) Communicative economies  
(D) None of these
23. From the point of view of competition which market is not included in classification-?
- (A) Perfect market  
(B) Wholesale market  
(C) Imperfect market  
(D) Monopoly
24. Economic activities require-
- (A) Human factors  
(B) Physical factors  
(C) Both (A) and (B)  
(D) Neither (A) nor (B)
25. Better indicator of development is-
- (A) National income  
(B) Per capita income  
(C) Real per capita income  
(D) National production
21. गेंद और बल्ला किस मांग का उदाहरण है-
- (A) संयुक्त मांग  
(B) पूरक मांग  
(C) व्युत्पन्न मांग  
(D) इनमें से कोई नहीं
22. पैमाने की आन्तरिक बचत है-
- (A) तकनीकी बचतें  
(B) केन्द्रीकरण की बचतें  
(C) संचार सम्बन्धी बचतें  
(D) इनमें से कोई नहीं
23. प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में निम्नांकित में से कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है-
- (A) पूर्ण बाजार  
(B) थोक बाजार  
(C) अपूर्ण बाजार  
(D) एकाधिकार
24. आर्थिक क्रियाओं के लिए आवश्यकता है-
- (A) मानव साधन  
(B) भौतिक साधन  
(C) (A) और (B) दोनों  
(D) (A) और (B) में से कोई नहीं
25. विकास का अच्छा संकेतक है-
- (A) राष्ट्रीय आय  
(B) प्रति व्यक्ति आय  
(C) वास्तविक प्रति व्यक्ति आय  
(D) राष्ट्रीय उत्पादन

26. Rural Development will brings-
- Employment opportunities
  - Raise standard of living
  - Prosperity
  - All the above
27. LPG and LNG are the example of-
- Solar energy
  - Bio energy
  - Wind energy
  - Natural gas
28. Such demand curve is parallel to x-line, it represents elasticity in the following-
- Infinite
  - Less than unit
  - Zero
  - Enelastic
29. Law of diminishing marginal utility is firstly used-
- Moore
  - Gossen
  - Robbins
  - All of these
30. Which commodities is not more demanded by fall in price-
- Luxurious commodities
  - Reputative commodities
  - Giffin's commodities
  - Mandatory commodities
26. ग्रामीण विकास लाएगा-
- रोजगार अवसर
  - रहन-सहन के स्तर में वृद्धि
  - सम्पन्नता
  - उपरोक्त सभी
27. LPG और LNG उदाहरण हैं-
- सौर ऊर्जा
  - बायो ऊर्जा
  - वायु ऊर्जा
  - प्राकृतिक गैस
28. एक ऐसा मांग वक्र जो x-अक्ष के समानान्तर होता है, निम्न प्रकार की लोच प्रदर्शित करता है-
- अनन्त
  - इकाई से कम
  - शून्य
  - बेलोचदार मांग
29. सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम का प्रयोग सर्वप्रथम किया-
- मूरे
  - गोसेन
  - राबिन्स
  - इसमें सभी
30. किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती-
- विलासिता वस्तुएँ
  - प्रतिष्ठारक्षक वस्तुएँ
  - गिफ्टिन वस्तुएँ
  - अनिवार्य वस्तुएँ

31. The long term production function is related with the-
- Law of diminishing returns
  - Returns to scale
  - Both (A) and (B)
  - None of these
32. With increase in production difference in TC and TVC is-
- Decreased
  - Increased
  - Fixed
  - Ever down and up
33. According to Professor Knight, profit is the reward for-
- Known risk
  - Unknown risk
  - Both (A) and (B)
  - Innovation
34. Example of 'derived demand' is-
- Demand for labour
  - Demand for tea
  - Demand for consumer goods
  - Income demand
35. Statistical project is source to know consumer awareness-
- Bad
  - Sufficient
  - Good
  - None of these
31. दीर्घकालीन उत्पादन फलन का सम्बन्ध है-
- उत्पत्ति झास नियम से
  - पैमाने के प्रतिफल से
  - उपर्युक्त दोनों (A) और (B) से
  - इनमें से कोई नहीं
32. उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अन्तर-
- घटता जाता है
  - बढ़ता जाता है
  - स्थिर रहता है
  - कभी घटता है और कभी बढ़ता है
33. प्रोफेसर नाइट के अनुसार, लाभ पुरस्कार है-
- ज्ञात जोखिम का
  - अज्ञात जोखिम का
  - (A) और (B) दोनों
  - नव-प्रवर्तन का
34. 'व्युत्पन्न मांग' का उदाहरण है-
- श्रम की मांग
  - चाय की मांग
  - उपयोग वस्तु की मांग
  - आय मांग
35. सांख्यिकी प्रोजेक्ट उपभोक्त्र जागरूकता की जानकारी का स्रोत है-
- बुरा
  - पर्याप्त
  - अच्छा
  - उपर्युक्त में से कोई नहीं

36. In order to promote foreign trade is required-
- Participation in international exhibitions
  - Advertisement of commodities
  - Appointment of foreign sales representative
  - All of the above
37. BPO means-
- Blue print outsource
  - Business physical organisation
  - Business process outsourcing
  - None of above
38. Surplus population engaged in agriculture can be gainfully employed in-
- Animal husbandry
  - Fisheries
  - Horticulture
  - All of the above
39. Commercial resource is-
- Water
  - Trees
  - Fish
  - Petroleum
40. Inflation means-
- Price fall
  - Price stagnation
  - Price rise
  - None of these
36. विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए आवश्यक है-
- अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रतिभाग
  - वस्तुओं का विज्ञापन
  - विदेशी विक्रय प्रतिनिधि की नियुक्ति
  - उपर्युक्त सभी
37. BPO का अर्थ है-
- ब्लू प्रिंट आउटसोर्स
  - व्यावसायिक भौतिक संगठन
  - व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्स
  - इनमें से कोई नहीं
38. अतिरेक जनसंख्या जो कृषि में प्रयुक्त है लाभप्रद हो सकते हैं रोजगार देकर-
- पशुपालन में
  - मछली पालन में
  - बागवानी में
  - उपरोक्त सभी में
39. वाणिज्यिक साधन हैं-
- पानी
  - पेड़
  - मछली
  - पेट्रोलियम
40. मुद्रा स्फीति का अर्थ है-
- मूल्य में कमी
  - मूल्य में स्थिरता
  - मूल्य में वृद्धि
  - उपर्युक्त में से कोई नहीं

41. Promote to reduce unemployment--  
 (A) Large Industry  
 (B) Decentralization  
 (C) Investment  
 (D) Small Industry
42. Bad effect of black money on economy is-  
 (A) On Inflation  
 (B) On political finance  
 (C) Distribution on factors  
 (D) None of the above
43. Income theory of money is improvement on-  
 (A) Saving  
 (B) Investment  
 (C) Quantitative theory of money  
 (D) None of above
44. Census of production method measures-  
 (A) Gross domestic income  
 (B) National income  
 (C) Net income  
 (D) None of above
45. Causes of unfavourable balance of payment is-  
 (A) Current account  
 (B) Capital account  
 (C) Devaluation of money  
 (D) Balance of trade
41. बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रोत्ताहन देना चाहिए-  
 (A) बड़े उद्योगों को  
 (B) विकेंद्रीकरण को  
 (C) विनियोग को  
 (D) छोटे उद्योगों को
42. काले धन का अर्थव्यवस्था पर पहुँचे वाला दुष्प्रभाव है-  
 (A) मुद्रा स्थिति पर  
 (B) राजनीतिक वित्त पर  
 (C) साधनों के वितरण पर  
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
43. मुद्रा के मूल्य का आय सिद्धांत किस पर एक सुधार है-  
 (A) बचत पर  
 (B) विनियोग पर  
 (C) परिमाण सिद्धांत पर  
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
44. उत्पादन गणना विधि से मापी जाती है-  
 (A) सकल घरेलू आय  
 (B) राष्ट्रीय आय  
 (C) शुद्ध आय  
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
45. प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन का कारण है-  
 (A) चालू खाता  
 (B) पूँजी खाता  
 (C) मुद्रा का अवमूल्यन  
 (D) व्यापार संतुलन

46. A man sales two machines at the rate of ₹ 395 each. He gets 10% profit on one machine and 10% loss on another machine. In whole transaction there is profit or loss will be-
- No profit. No loss
  - 1% loss
  - 1% profit
  - 8% profit
47. The purchase price of suitcase is ₹1,530. What price he should note on the suitcase to get 20% profit on suitcase after giving 15% discount-
- ₹1,840
  - ₹2,160
  - ₹2,240
  - ₹1,620
48. A, B and C are partner in a company. In any one year A got  $\frac{1}{3}$  part of profit, B got  $\frac{1}{4}$  part of profit and C got ₹ 5,000. How many rupees A got as profit-
- ₹5,000
  - ₹4,000
  - ₹3,000
  - ₹1,000
49. If  $\sqrt[3]{9} = 3$  then  $\sqrt[3]{.9} = ?$
- 0.3
  - 0.03
  - 0.94
  - None of the above
46. एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को ₹395 में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि है-
- न लाभ, न हानी
  - 1% हानि
  - 1% लाभ
  - 8% लाभ
47. एक अटैची जिसका क्रय मूल्य ₹1,530 है, दुकानदार को इस अटैची पर कितना मूल्य अंकित करना होगा ताकि 15% छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ हो-
- ₹1,840
  - ₹2,160
  - ₹2,240
  - ₹1,620
48. A, B और C एक कम्पनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में A को लाभ का  $\frac{1}{3}$  भाग मिला, B को  $\frac{1}{4}$  मिला और C को ₹ 5,000. तब A को लाभ के फल स्वरूप वित्तने रुपए मिले?
- ₹5,000
  - ₹4,000
  - ₹3,000
  - ₹1,000
49. यदि  $\sqrt[3]{9} = 3$  तो  $\sqrt[3]{.9} = ?$
- 0.3
  - 0.03
  - 0.94
  - उपर्युक्त में से कोई नहीं

50. Number is 1,2,3,4,5,6,7,8,9 what will be median-
- 5.0
  - 5.5
  - 4.5
  - 4.0
51. At first Industrial Revolution started in-
- France
  - Russia
  - England
  - Germany
52. Which is not a merit of Scientific Revolution and Technical changes in the following?
- Rising of capitalism
  - Development of source of transport and communication
  - Rising of handicraft
  - Construction of cities
53. Meaning of Reimport is-
- Only import
  - Only export
  - Import for export
  - None of these
54. Which business organisation should be selected when capital is sufficient for commencement of business-
- Sole trade
  - Partnership organisation
  - Company organisation
  - Co-operative organisation
50. अंक 1,2,3,4,5,6,7,8,9 का माध्यिका क्या होगा?
- 5.0
  - 5.5
  - 4.5
  - 4.0
51. औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारम्भ हुई-
- फ्रांस
  - रूस
  - इंग्लैंड
  - जर्मनी
52. निम्नलिखित में से कौन-सी वैज्ञानिक क्रांति एवं तकनीकी परिवर्तन की विशेषता नहीं है-
- पूंजीवाद का उदय
  - परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास
  - हस्तशिल्प का उदय
  - नगरों का निर्माण
53. पुनर्निर्यात व्यापार का तात्पर्य है-
- केवल आयात से
  - केवल निर्यात से
  - निर्यात के लिए आयात से
  - इनमें से कोई नहीं
54. यदि व्यापार प्रारम्भ करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो किस व्यावसायिक संगठन का चयन करना चाहिए?
- एकाकी व्यापार
  - साझेदारी संगठन
  - कम्पनी संगठन
  - सहकारी संगठन

55. For the business secrecy aspect most appropriate business is-
- Sole trade
  - Joint Hindu Family business
  - Co-operative Society
  - Public Enterprise
56. "One man control is best in the world if a man is able to control and manage the business." Said by-
- Kimbal and Kimbal
  - William R. Besent
  - Hanney
  - None of the above
57. The relation of principal and agent becomes in—
- Sole trade
  - Partnership
  - Co-ownership
  - None of the above
58. Owner's liability is unlimited in-
- Sole trade
  - Partnership
  - Company
  - Both (A) and (B)
59. A minor partner attaining majority, he should give a public notice after the time under-
- 2 months
  - 1 year
  - 6 months
  - 2 years
55. व्यावसायिक रहस्यों की गोपनीयता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त होता है-
- एकलकी व्यापार
  - संयुक्त हिन्दू परिवार व्यावाय
  - सहकारी समिति
  - सर्वजनिक उपक्रम
56. "एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, वह व्यक्ति इतना बड़ा हो कि वह व्यावसाय का सब व्यवंथ कर सके।" यह कथन है-
- किम्बल एवं किम्बल का
  - विलियम आर० बेसेंट का
  - हैने का
  - इनमें से कोई नहीं
57. प्रधान एवं अधिकारी का सम्बन्ध होता है-
- एकल व्यापार में
  - साझेदारी में
  - सह-स्थानित में
  - इनमें से कोई नहीं
58. सहायियों का दायित्व असीमित होता है-
- एकल व्यापार में
  - साझेदारी में
  - कम्पनी में
  - (A) और (B) दोनों में
59. अदृश्य को दृश्य होने के लिये समय का सर्वजनिक धोखा करनी चाहिए-
- 2 महीने के अंदर
  - 1 वर्ष के अंदर
  - 6 महीने के अंदर
  - 2 वर्ष के अंदर

60. The law is given for registration of a firm in Indian Partnership Act 1932 under section-
- (A) 65 to 69      (B) 56 to 59  
(C) 56 to 69      (D) 59 to 69
61. The registration of partnership firm can be done-
- (A) At time of opening of the firm  
(B) At any time of opening of the firm  
(C) Within one year of commencement of business  
(D) None of the above
62. Change in present agreement among partner's is called-
- (A) Dissolution of firm  
(B) Dissolution of partnership  
(C) Dissolution of business  
(D) All of the above
63. The dissolution of partnership firm becomes under condition-
- (A) Entry of partner  
(B) Retirement of partner  
(C) End of partnership period  
(D) Losing concern in partnership
64. Issue of prospectus is not necessary for
- (A) Private Company  
(B) Public Company  
(C) Government Company  
(D) None of the above
60. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अंतर्गत साझेदारी फर्म के पंजीयन के बारे में नियमों का उल्लेख किया गया है-
- (A) 65 से 69      (B) 56 से 59  
(C) 56 से 69      (D) 59 से 69
61. साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं-
- (A) फर्म की स्थापना के समय  
(B) फर्म की स्थापना के पश्चात किसी भी समय  
(C) व्यापार प्रारम्भ करने के एक वर्ष के अंदर  
(D) इनमें से कोई नहीं
62. साझेदारों के मध्य वर्तमान ठहराव में परिवर्तन कहलाता है-
- (A) फर्म का समापन  
(B) साझेदारी का समापन  
(C) व्यवसाय का समापन  
(D) उपरोक्त सभी
63. साझेदारी फर्म का समापन किस दिशा में माना जाता है-
- (A) साझेदार का प्रवेश होने पर  
(B) किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर  
(C) साझेदार की अवधि समाप्त होने पर  
(D) साझेदारी में हानि होने पर
64. प्रविवरण निर्गमित करना आवश्यक नहीं है-
- (A) निजी कम्पनी में  
(B) सार्वजनिक कम्पनी में  
(C) सरकारी कम्पनी में  
(D) इनमें से कोई नहीं

65. Minimum number in public company  
 (A) 20  
 (B) 7  
 (C) 10  
 (D) 2
66. Articles of Association is prepared according to-  
 (A) Company Act  
 (B) Memorandum of Association  
 (C) Both (A) and (B)  
 (D) Objective of company
67. In lieu of articles of association may be-  
 (A) Table A  
 (B) Table B  
 (C) Table C  
 (D) Table D
68. A man who try to establish new company is called-  
 (A) Promotors  
 (B) Director  
 (C) Managing director  
 (D) Manager
69. The main documents to be presented to registrar-  
 (A) Memorandum of Association  
 (B) Articles of Association  
 (C) List of directors  
 (D) All of the above
65. सार्वजनिक कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या होती है-  
 (A) 20  
 (B) 7  
 (C) 10  
 (D) 2
66. पार्षद अन्तर्राजियम का निर्माण किया जाता है-  
 (A) कम्पनी अधिनियम के अनुसार  
 (B) पार्षद सीमा नियम के अनुसार  
 (C) (A) तथा (B) दोनों  
 (D) कम्पनी के उद्देश्यों के अनुसार
67. पार्षद अन्तर्राजियम के स्थान पर हो सकता है-  
 (A) सूची A  
 (B) सूची B  
 (C) सूची C  
 (D) सूची D
68. एक व्यक्ति जो एक नई कम्पनी की स्थापना हेतु प्रयास करता है, कहलाता है-  
 (A) प्रवर्तक  
 (B) निदेशक  
 (C) प्रबन्ध निदेशक  
 (D) प्रबन्धक
69. रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाने वाला मुख्य प्रलेख है-  
 (A) पार्षद सीमा नियम  
 (B) पार्षद अन्तर्राजियम  
 (C) संचालकों की सूची  
 (D) उपर्युक्त सभी

70. The minimum number of director in public company become-
- (A) Two  
(B) Three  
(C) Five  
(D) Seven
71. The maximum number of directors in board of directors in company-
- (A) Ten  
(B) Fifteen  
(C) Twenty  
(D) Twenty five
72. Dividend is declared in-
- (A) Statutory meeting  
(B) Annual general meeting  
(C) Extra-ordinary general meeting  
(D) Director's meeting
73. Which work is not done by liquidator of company-
- (A) Realisation of assets  
(B) Taking loan  
(C) Payment of liabilities  
(D) Distribution of surplus money among shareholders
74. Methods of winding up of a company according to Company Act are-
- (A) Two  
(B) Three  
(C) Four  
(D) Six
70. सार्वजनिक कंपनी की दशा में न्यूनतम संचालक होते हैं-
- (A) दो  
(B) तीन  
(C) पाँच  
(D) सात
71. कम्पनी के संचालक-मण्डल में संचालकों की अधिकतम संख्या होती है
- (A) दस<sup>10</sup>  
(B) पन्द्रह<sup>15</sup>  
(C) बीस<sup>20</sup>  
(D) पच्चीस<sup>25</sup>
72. लाभांश घोषित किया जाता है
- (A) वैधानिक सभा में  
(B) वार्षिक साधारण सभा में  
(C) असाधारण सामान्य सभा में  
(D) संचालकों की सभा में
73. कम्पनी का निस्तारक कौन-सा कार्य नहीं करता-
- (A) संपत्तियों को वसूल करना  
(B) ऋण लेना  
(C) दायित्वों का भुगतान करना  
(D) आधिकार्य धन को अंशधारियों में बांटना
74. कम्पनी अधिनियम के अनुसार, कम्पनी के समापन की विधियां हैं-
- (A) दो  
(B) तीन  
(C) चार  
(D) छः

75. First chain of distribution channel work-
- Wholesaler
  - Retailer
  - Producer
  - Consumer
76. Wholesaler provide financial help to producers by which way-
- Cash payment
  - Advance payment
  - Facility of loan
  - All of above
77. Bata shoe company is a-
- Departmental store
  - Co-operative consumer store
  - Chain shops
  - None of above
78. Self-service system is used in-
- Departmental Store
  - Chain shops
  - Super market
  - All of the above
79. An agent who is mediator in sale and purchase and fix deal in the name of his principal is called-
- Factor
  - Sales agent
  - Broker
  - None of the above
75. वितरण माध्यम की प्रथम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं-
- थोक व्यापारी
  - फुटकर व्यापारी
  - उत्पादक
  - उपभोक्ता
76. थोक व्यापारी निम्नलिखित में से किस माध्यम के द्वारा निर्माताओं की वित्तीय सहायता करते हैं-
- नगद भुगतान
  - अग्रिम भुगतान
  - ऋण सुविधा
  - यह सभी
77. बाटा शू कम्पनी है एक-
- विभागीय भंडार
  - उपभोक्ता सहकारी भंडार
  - श्रृंखला बद्ध भंडार
  - इनमें से कोई नहीं
78. स्वयं सेवा पद्धति अपनाई जाती है-
- विभागीय भंडार में
  - श्रृंखलाबद्ध भंडार में
  - सुपर बाजार में
  - उपर्युक्त सभी में
79. जो एजेंट क्रय-विक्रय में मध्यस्थिता करते हैं तथा प्रधान के नाम से सौदा तय करते हैं, उसे कहते हैं-
- आढ़तिया
  - विक्रय एजेण्ट
  - दलाल
  - इनमें से कोई नहीं

80. In case of mail order business the trader will sent goods to purchaser by-
- (A) Parcel  
(B) Insurance  
(C) Registry  
(D) V.P.P.
81. The maximum amount of rupees can be sent by money order-
- (A) ₹ 5,000  
(B) ₹ 2,000  
(C) ₹ 4,000  
(D) ₹ 1,000
82. How many periods can be extended to fifteen years Public Provident Fund?
- (A) 1 year  
(B) 2 year  
(C) 5 year  
(D) 10 year
83. The full name of PIN Code is-
- (A) Postal Code  
(B) Index Code  
(C) Index Number Code  
(D) Postal Index Number Code
84. The negotiable instrument in which an order to pay is given to bank-
- (A) Bills of exchange  
(B) Promissory note  
(C) Cheque  
(D) Hundi
80. डाक द्वारा व्यापार की दशा में आदेश प्राप्त होने पर व्यापारी क्रेता को माल भेजेगा-
- (A) पार्सल द्वारा  
(B) बीमा द्वारा  
(C) रजिस्ट्री द्वारा  
(D) वी०पी०पी० द्वारा
81. मनी आर्डर से अधिकतम राशि भेज सकते हैं-
- (A) ₹ 5,000  
(B) ₹ 2,000  
(C) ₹ 4,000  
(D) ₹ 1,000
82. पन्द्रह वर्षीय लोक भविष्य निधि खाते को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है?
- (A) 1 वर्ष  
(B) 2 वर्ष  
(C) 5 वर्ष  
(D) 10 वर्ष
83. पिन कोड का पूरा नाम है-
- (A) पोस्टल कोड  
(B) इण्डेक्स कोड  
(C) इण्डेक्स नम्बर कोड  
(D) पोस्टल इण्डेक्स नम्बर कोड
84. परक्राम्य विलेख जिसमें एक बैंक की रकम का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है वह है-
- (A) विनिमय विपत्र  
(B) प्रतिज्ञा पत्र  
(C) चेक  
(D) हुण्डी

85. Management is the development-  
 (A) of people  
 (B) of things  
 (C) of business  
 (D) of industry
86. The father of scientific management was-  
 (A) Taylor  
 (B) Fayol  
 (C) George R. Terry  
 (D) Appley
87. In an enterprise organisation is established by-  
 (A) Top Management  
 (B) Middle Management  
 (C) Lower Management  
 (D) Board of Directors
88. X and Y theory of motivation has been propounded by-  
 (A) Meslow  
 (B) Ouchi  
 (C) Herzberg  
 (D) Mc Gregor
89. The minimum parties to communication are-  
 (A) 2  
 (B) 4  
 (C) 8  
 (D) 16
85. प्रबन्ध विकास है-  
 (A) लोगों का  
 (B) वस्तुओं का  
 (C) व्यवसाय का  
 (D) उद्योगों का
86. वैज्ञानिक प्रबन्ध के पिता हैं-  
 (A) टेलर  
 (B) फेयोल  
 (C) जॉर्ज आर. टेरी  
 (D) एप्पले
87. उपकरण में संगठन की स्थापना करता है-  
 (A) उच्चतम प्रबन्ध  
 (B) मध्यम प्रबन्ध  
 (C) निम्न प्रबन्ध  
 (D) संचालन मण्डल
88. एक्स तथा वाई के अभिप्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है-  
 (A) मैस्लो  
 (B) आऊची  
 (C) हर्झर्बर्ग  
 (D) मैक्कोगर
89. सन्देशवाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं-  
 (A) 2  
 (B) 4  
 (C) 8  
 (D) 16

90. The function of decision - making is of-
- Lower Management
  - Middle Management
  - Top Management
  - All level of Management
91. SWOT analysis includes-
- Strengths
  - Weakness
  - Threats
  - All of the above
92. Delegation can be done of-
- Authority
  - Responsibility
  - Accountability
  - None of these
93. The important role plays in the economic development of any nation-
- Railway
  - Road Transport
  - Water Transport
  - All of the above
94. Acceptance is necessary-
- Promissory note
  - Cheque
  - Bills of exchange
  - Bank Draft
90. निर्णयन का कार्य है-
- निम्न प्रबन्ध
  - मध्यम प्रबन्ध
  - उच्च प्रबन्ध
  - सभी प्रबन्धकीय स्तर
91. स्वोट विश्लेषण में सम्मिलित हैं-
- शक्तियाँ
  - दुर्बलता
  - चुनौतियाँ
  - ये सभी
92. भारापूर्ण किया जा सकता है-
- अधिकार का
  - उत्तरदायित्व का
  - जवाबदेही का
  - इनमें से कोई नहीं
93. किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है-
- रेल परिवहन
  - सड़क परिवहन
  - पोत परिवहन
  - ये सभी
94. स्वीकृति कराना आवश्यक है-
- प्रतिज्ञा पत्र
  - चेक
  - विनिमय पत्र
  - बैंक ड्राफ्ट

95. Who makes payment the amount of promissory note?  
 (A) Writer  
 (B) Acceptor  
 (C) Bank  
 (D) Creditors
96. Cross is possible in-  
 (A) Cheque  
 (B) Bills of exchange  
 (C) Promissory note  
 (D) All of above
97. In which account the amount may be deposited many time-  
 (A) Current Account  
 (B) Savings Account  
 (C) Both (A) and (B)  
 (D) None of above
98. Which service is used to send large amount by post?  
 (A) Postal ticket  
 (B) Money order  
 (C) By Insurance  
 (D) Postal order
99. The capital of company is divided in many parts is called-  
 (A) Profit  
 (B) Share  
 (C) Dividend  
 (D) Interest
95. प्रतिज्ञा पत्र की राशि का भुगतान कीन करता है-  
 (A) लेखक  
 (B) स्वीकर्ता  
 (C) बैंक  
 (D) लेनदार
96. रेखांकन संभव है-  
 (A) चेक का  
 (B) विनिमय विपत्र का  
 (C) प्रतिज्ञा पत्र का  
 (D) इनमें से सभी का
97. किस खाते में जितनी बार चाहे रुपया जमा कर सकते हैं-  
 (A) चालू खाता  
 (B) बचत खाता  
 (C) (A) और (B) दोनों  
 (D) इनमें से कोई नहीं
98. बड़ी-बड़ी धनराशि डाक द्वारा भेजने के लिए किस सेवा का प्रयोग किया जाता है?  
 (A) डाक टिकट  
 (B) मनी आर्डर  
 (C) बीमा द्वारा  
 (D) पोस्टल आर्डर
99. कम्पनी की पूँजी अनेक भागों में बैटी होती है, जिन्हें कहा जाता है-  
 (A) लाभ  
 (B) अंश  
 (C) लाभांश  
 (D) ब्याज

100. In which condition the court can order for dissolution of firm on application of partners-
- Lunacy of a partner
  - Unexpected profit of firm
  - Commencement of business performance in foreign country
  - All of above
101. The system of recording transactions bases on dual aspect concept is called-
- Double Account System
  - Single Account System
  - Double Entry System
  - Single Entry System
102. How many columns are there in a journal?
- Three
  - Four
  - Five
  - Six
103. No Journal entry is made for-
- Brokerage
  - Cash discount
  - Trade discount
  - Commission
104. Double entry system's rule 'Debit the receiver and credit the giver' is applicable to-
- Personal Account
  - Real Account
  - Nominal Account
  - Joint Account
100. किसी साझेदार के द्वारा आवेदन दिए जाने पर न्यायालय किस परिस्थिति में फर्म के समाप्त का आदेश दे सकता है-
- किसी साझेदार का पासल होना
  - फर्म को अप्रत्याशित लाभ होना
  - फर्म द्वारा विदेश में व्यापार प्रारम्भ करना
  - ये सभी
101. द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन-देनों को लिखने की प्रणाली को कहा जाता है-
- दोहरा खाता प्रणाली
  - इकहरी खाता प्रणाली
  - दोहरा लेखा प्रणाली
  - इकहरी लेखा प्रणाली
102. रोजनामचा में कितने कालम (खाने) होते हैं?
- तीन
  - चार
  - पाँच
  - छः
103. रोजनामचा की प्रविधि ..... के लिए नहीं किया जाता है-
- दलाली
  - नकद सूट
  - व्यापारिक सूट
  - कमीशन
104. दोहरा लेखा प्रणाली का नियम 'पाने वाले को नाम एवं देने वाले को जमा' लागू होता है-
- व्यक्तिगत खाते के लिए
  - वास्तविक खाता के लिए
  - नाममात्र खाता के लिए
  - संयुक्त खाता के लिए

105. Bad Debts Account is related to-

- (A) Personal Account
- (B) Real Account
- (C) Nominal Account
- (D) Suspense Account

106. Goodwill is-

- (A) Floating Asset
- (B) Wasting Asset
- (C) Fictitious Asset
- (D) Intangible Asset

107. Which equation is not correct out of the following equations?

- (A) Capital = Asset - Liabilities
- (B) Assets = Liabilities + Capital
- (C) Liabilities = Assets - Capital
- (D) Assets = Liabilities - Capital

108. Outstanding salary is ..... for trade-

- (A) Income
- (B) Expenses
- (C) Liabilities
- (D) Assets

109. Trial Balance is-

- (A) An Account
- (B) A Statement
- (C) An Information
- (D) A Summary

105. अशोध्य ऋण खाता का सम्बन्ध है-

- (A) व्यक्तिगत खाता
- (B) वास्तविक खाता
- (C) नाममात्र खाता
- (D) उचन्त खाता

106. ख्याति है-

- (A) अस्थाई संपत्ति
- (B) नाशवान संपत्ति
- (C) बनावटी संपत्ति
- (D) अमूर्त संपत्ति

107. निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही नहीं है-

- (A) पूँजी = संपत्तियाँ - दायित्व
- (B) संपत्तियाँ = दायित्व + पूँजी
- (C) दायित्व = संपत्तियाँ - पूँजी
- (D) संपत्तियाँ = दायित्व - पूँजी

108. वेतन में अदत्य राशि व्यापार के लिए ..... है-

- (A) आय
- (B) व्यय
- (C) दायित्व
- (D) सम्पत्ति

109. तलपट ..... है-

- (A) एक खाता
- (B) एक विवरण
- (C) एक सूचना
- (D) एक सारांश

110. Balance of the cash book is ..... -  
(A) Debit and Credit  
(B) Debit or Credit  
(C) Debit  
(D) Credit
111. Under the straight line method of charging depreciation, the amount of depreciation ..... -  
(A) Remains constant every year  
(B) Decreases every year  
(C) Increases every year  
(D) Is not certain
112. Expenditure incurred on extension to an existing property is treated as ..... -  
(A) Revenue Loss  
(B) Capital Profit  
(C) Revenue Expenditure  
(D) Capital Expenditure
113. One who drafts the bill is called ..... -  
(A) Debtor  
(B) Drawee  
(C) Payee  
(D) Drawer
114. Registration of cooperative societies is-  
(A) Voluntary  
(B) Compulsory  
(C) Harmful  
(D) Desirable
110. रोकड़ बही का शेष ..... होता है-  
(A) नाम एवं जमा  
(B) नाम या जमा  
(C) नाम  
(D) जमा
111. हास आयोजन की सरल रेखा पद्धति के अंतर्गत हास की राशि ..... -  
(A) प्रतिवर्ष समान रहती है  
(B) प्रतिवर्ष घटती रहती है  
(C) प्रतिवर्ष बढ़ती है  
(D) कोई निश्चित नहीं है
112. किसी विद्यमान सम्पत्ति के विस्तार पर किया गया व्यय ..... होता है-  
(A) आयगत हानी  
(B) पूँजीगत लाभ  
(C) आयगत व्यय  
(D) पूँजीगत व्यय
113. जो बिल लिखता है उसे कहा जाता है .....  
(A) देनदार  
(B) लेखाधार  
(C) प्राप्तकर्ता  
(D) लेखक
114. सहकारी समितियों का पंजीयन है-  
(A) ऐच्छिक  
(B) अनिवार्य  
(C) हानिकारक  
(D) वांछनीय

115. If payment is made before average due date then debtor is allowed-

- (A) Discount
- (B) Rebate
- (C) Brokerage
- (D) Commission

116. Partnership is formed as a result of ...-

- (A) License from Government
- (B) An agreement among individuals
- (C) A central legislation
- (D) A state legislation

117. Which one of the following is capital expenditure?

- (A) Cost of annual advertisement
- (B) Purchase of a delivery van
- (C) Purchase of raw material
- (D) Purchase of machine oil

118. Income & Expenditure Account is prepared by -

- (A) A Partnership firm
- (B) A Bank
- (C) A Trading Concern
- (D) A non-trading Concern

119. The main object of Ledger is to ascertain-

- (A) Total sales
- (B) Total purchases
- (C) Profit or loss of the business
- (D) Net effect of all the similar nature transactions

115. यदि औसत भुगतान तिथि के पूर्व भुगतान किया जाता है तो देनदार को देना पड़ता है-

- (A) स्कूट
- (B) कटौती
- (C) दलाली
- (D) कर्मीशन

116. साझेदारी की स्थापना ..... के फलस्वरूप होता है-

- (A) सरकार से लाइसेंस
- (B) व्यक्तियों के बीच समझौता
- (C) केन्द्रीय विधान
- (D) प्रान्तीय विधान

117. निम्नलिखित में से कौन-सा पूँजीगत व्यय है-

- (A) वार्षिक विज्ञापन की लागत
- (B) माल सुपुर्दगी वाहन की खरीद
- (C) कच्चे माल की खरीद
- (D) मशीन के तेल की खरीद

118. आय एवं व्यय खाता तैयार किया जाता है-

- (A) साझेदारी फर्म द्वारा
- (B) बैंक द्वारा
- (C) व्यापारिक संस्था द्वारा
- (D) गैर-व्यापारिक संस्था द्वारा

119. खाता बही का मुख्य उद्देश्य क्या जानना है-

- (A) कुल विक्रय
- (B) कुल क्रय
- (C) व्यापार का लाभ या हानि
- (D) एक स्वभाव के सभी लेनदेनों का समूलक परिणाम

120. If a Trial Balance does not agree then accountant opens .....-
- Drawing Account
  - Suspense Account
  - Capital Account
  - Nominal Account
121. Balance sheet shows-
- Gross profit of financial period
  - Net profit of financial period
  - Financial position on a particular date
  - All real, personal and nominal account
122. Outstanding expenses are shown as:
- An expense
  - An income
  - A liability
  - An asset
123. The book containing a chronological record of transactions is-
- Journal
  - Ledger
  - Trial balance
  - Balance sheet
124. In case of hire purchase asset account is debited with-
- Cash price
  - Contract price
  - Hire purchase price
  - Cost price to the seller
120. यदि तलपट का मिलान नहीं होता है, तब लेखापाल खोलता है .....
- आहरण खाता
  - भूलचूक खाता
  - पैंजी खाता
  - नाममात्र खाता
121. आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है-
- वित्तीय अवधि का सकल लाभ
  - वित्तीय अवधि का शब्द लाभ
  - एक विशेष तिथि पर वित्तीय स्थिति
  - समस्त वार्ताविक व्यक्तिगत एवं नाममात्र के खाते
122. अदत्त व्यय को निम्न के रूप में दिखाते हैं:
- एक व्यय
  - एक आय
  - एक दायित्व
  - एक सम्पत्ति
123. वह वही जिसमें लेन-देनो को कालानुक्रमिक ढंग से अंकित किया जाता है कहलाता है-
- रोजनामचा
  - खाता बही
  - तलपट
  - आर्थिक चिट्ठा
124. किराया क्रय की स्थिति में सम्पत्ति को डेबिट किया जाता है-
- रोकड़ मूल्य से
  - संविदा मूल्य से
  - किराया क्रय मूल्य से
  - विक्रेता के लागत मूल्य से

125. In case of installment system total interest receivable by the seller is credited to-
- Bank Account
  - Interest suspense Account
  - Interest Account
  - Sales Account
126. How many parties becomes in Promissory note?
- Five
  - Two
  - Three
  - Four
127. AS- 26 is related to-
- Intangible assets
  - Investments
  - Depreciation
  - Net profit
128. The Receipt and Payment Account is-
- A Nominal Account
  - A Real Account
  - A Personal Account
  - A Statement
129. Under Hire Purchase System the ownership of property remains with-
- Buyer
  - Owner
  - Guarantor
  - None of the above
125. किश्त पद्धति की स्थिति में, विक्रेता द्वारा प्राप्त कुल ब्याज को क्रेडिट किया जाता है-
- बैंक खाता में
  - ब्याज उच्चत खाता में
  - ब्याज खाता में
  - विक्रय खाता में
126. प्रतिज्ञा-पत्र में कितने पक्षकार होते हैं?
- पाँच
  - दो
  - तीन
  - चार
127. AS- 26 सम्बन्धित है-
- अमूर्त परिसम्पत्तियों से
  - विनियोग से
  - हास से
  - शुद्ध लाभ से
128. प्राप्ति एवं भुगतान खाता है-
- एक अभिहित खाता
  - एक वास्तविक खाता
  - एक व्यक्तिगत खाता
  - एक विवरण पत्र
129. किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत संपत्ति पर स्वामित्व इनके पास रहता है-
- क्रेता
  - स्वामी
  - प्रतिभूति कर्ता
  - उपर्युक्त में से कोई नहीं

130. The credit purchase of fixed assets are recorded in-

- (A) Purchase Book
- (B) Cash Book
- (C) Journal Proper
- (D) Sales Return Book

131. Premium received on issue of shares can be used for .....

- (A) Payment of dividend
- (B) Writing off preliminary expenses
- (C) Payment of director fees
- (D) Redemption of debentures

132. Profit prior to the incorporation are an example of .....

- (A) Capital Reserve
- (B) Secret Reserve
- (C) Revenue Reserve
- (D) Statutory Reserve

133. Profit on cancellation of own debentures should be transferred to-

- (A) Profit & Loss A/c
- (B) Profit & Loss Appropriation A/c
- (C) Capital Reserve A/c
- (D) Reserve Capital A/c

130. स्थिर सम्पत्ति का उधार क्रय अभिलेखित किया जाता है-

- (A) क्रय बही
- (B) रोकड़ बही
- (C) जर्नल प्रापर
- (D) बिक्री वापसी बही

131. अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रब्याजी का उपयोग किया जा सकता है .....

- (A) लाभांश भुगतान के लिए
- (B) प्रारम्भिक व्ययों के अवलेखन के लिए
- (C) संचालक फीस के भुगतान के लिए
- (D) ऋण पत्रों के भुगतान के लिए

132. सभामेलन से पूर्व के लाभ एक उदाहरण है ...-

- (A) पूँजी संचय का
- (B) गुप्त संचय का
- (C) आगम संचय का
- (D) वैधानिक संचय का

133. अपने ऋण पत्र के निरस्तीकरण पर लाभ को अन्तरित करना चाहिए-

- (A) लाभ-हानि खाता
- (B) लाभ- हानी नियोजन खाता
- (C) पूँजी संचय खाता
- (D) संचय पूँजी खाता

134. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. C retires. The new profits and losses sharing ratio between A and B will be-

- (A) 1:1
- (B) 2:1
- (C) 3:2
- (D) 5:3

135. Goods valued Rs. 3,600 lost by fire. The insurance company admitted a claim for Rs. 2,000. What amount will be shown in Trading Account?

- (A) Rs.1,600
- (B) Rs.2,000
- (C) Rs.3,600
- (D) No amount

136. In which of the following would an adjusting entry for depreciation be made?

- (A) Cash Book
- (B) Journal
- (C) Sales Book
- (D) Purchase Book

137. The Goodwill brought in by a new partner is withdrawn by old partners in their-

- (A) New profit sharing ratio
- (B) Old profit sharing ratio
- (C) Capital ratio
- (D) Equally

134. A, B तथा C साझेदार हैं जो लाभ हानि का वितरण 2:2:1 के अनुपात में करते हैं। C अवकाश प्राप्त करता है। A और B के बीच नया लाभ-हानि का वितरण अनुपात होगा-

- (A) 1:1
- (B) 2:1
- (C) 3:2
- (D) 5:3

135. 3,600 रु. मूल्य का माल अग्नि से नष्ट हो गया परंतु बीमा कंपनी ने 2,000 रु. का दावा स्वीकार किया। व्यापार लेखा में कितनी राशि दिखाई जाएगी-

- (A) 1,600 रु.
- (B) 2,000 रु.
- (C) 3,600 रु.
- (D) कोई राशि नहीं

136. निम्नलिखित में से कौन-सा समायोजन लेखा छास के लिए किया जाता है?

- (A) रोकड़ खाता
- (B) जर्नल
- (C) विक्रय खाता
- (D) क्रय खाता

137. नए साझेदार द्वारा लायी हुई ख्याती पुराने साझेदारों द्वारा निकाली जाती है-

- (A) नये लाभ अनुपात में
- (B) पुराने लाभ अनुपात में
- (C) पूँजी के अनुपात में
- (D) बराबर-बराबर

138. Which one of the following is an example of non-cash expenses?
- Depreciation
  - Wages and Salaries
  - Telephone expenses
  - Administrative expenses
139. Which one of the following is not a cash inflow?
- Purchase of fixed assets
  - Sale of goods
  - Issue of debentures
  - Sale of fixed assets
140. When total sources of funds are more than the total applications of funds the net effect is-
- Increase in working capital
  - Decrease in working capital
  - Increase in total assets
  - Decrease in total assets
141. Which one of the following is not added to the net profit for computing the amount of funds from operations?
- Depreciation on machinery
  - Profit on the sale of plant
  - Goodwill written off
  - Loss on the sale of furniture
142. Which one of the following is not an application of fund?
- Repayment of loan
  - Acquiring an asset in lieu of equity shares
  - Redemption of preference shares
  - Payment of dividend
138. निम्न में से कौन गैर-रोकड़ व्यय का उदाहरण है-
- हास
  - मजदूरी तथा वेतन
  - टेलीफोन व्यय
  - प्रशासनिक व्यय
139. निम्न में से कौन रोकड़ अन्तर्वाह नहीं है-
- स्थाई सम्पत्ति का क्य
  - माल की बिक्री
  - ऋण पत्रों का निर्गमन
  - स्थाई सम्पत्ति की बिक्री
140. जब कोषों के कुल स्रोत, कोषों के कुल उपयोग से अधिक हो तो, उसका शुद्ध प्रभाव होगा-
- कार्यशील पूँजी में वृद्धि
  - कार्यशील पूँजी में कमी
  - कुल सम्पत्ति में वृद्धि
  - कुल सम्पत्ति में कमी
141. परिचालन से कोष की राशि की गणना करने में निम्नलिखित में से किस मद को शुद्ध लाभ में नहीं जोड़ा जाता है?
- मशीनी पर हास
  - प्लांट की बिक्री पर लाभ
  - समाप्त की गई ख्याति
  - फर्नीचर की बिक्री से हानि
142. निम्नलिखित में से कौन कोषों का उपयोग नहीं है-
- ऋण का पुनर्भुगतान
  - समता अंशों के बदले सम्पत्ति का क्रय
  - अधिमान अंशों का विमोचन
  - लाभांश का भुगतान

143. The flow of fund is said to have taken place when-

- (A) Cash is paid to creditors
- (B) Cash is received from debtors
- (C) Machinery is purchased for cash
- (D) In all of the above cases

144. The schedule of changes in working capital is prepared with the help of-

- (A) Current assets
- (B) Current liabilities
- (C) Current assets and current liabilities
- (D) non-current assets and non-current liabilities

145. Dividing net sales by average debtors would yield-

- (A) Acid test ratio
- (B) Return on sales ratio
- (C) Operating ratio
- (D) Debtors turnover ratio

146. Higher the ratio lower the profit ability is applicable to-

- (A) Gross profit ratio
- (B) Net profit ratio
- (C) Operating ratio
- (D) Return on investment

147. Net worth of the business means-

- (A) Equity capital
- (B) Total assets
- (C) Total assets minus total liabilities
- (D) Fixed assets minus current assets

143. कोषों का प्रवाह हुआ तब माना जाता है जब-

- (A) लेनदार को रोकड़ का भुगतान किया जाए
- (B) देनदार से रोकड़ प्राप्त हो
- (C) रोकड़ देकर मशीनरी क्रय किया जाए
- (D) उपरोक्त सभी दशा में

144. कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों का विवरण किसकी सहायता से बनाया जाता है-

- (A) चालू सम्पत्तियों से
- (B) चालू दायित्वों से
- (C) चालू सम्पत्तियों व चालू दायित्वों से
- (D) गैर-चालू सम्पत्तियों व गैर-चालू दायित्वों से

145. शुद्ध विक्रय को औसत देनदारों से विभाजित करने पर प्राप्त होगा-

- (A) एसिड जॉच अनुपात
- (B) विक्रय पर प्रत्याय अनुपात
- (C) परिचालन अनुपात
- (D) देनदार आवर्त अनुपात

146. 'ऊँचा अनुपात, न्यूनतम लाभ' लागू होता है-

- (A) सकल लाभ अनुपात पर
- (B) शुद्ध लाभ अनुपात पर
- (C) परिचालन अनुपात पर
- (D) विनियोग पर प्रत्याय पर

147. व्यापार की शुद्ध मालियत का आशय है-

- (A) समता पूँजी
- (B) कुल सम्पत्ति
- (B) कुल सम्पत्ति - कुल दायित्व
- (D) स्थाई सम्पत्ति - चालू सम्पत्ति

148. In calculating the return on shareholders' equity the denominator is-

- (A) Equity capital
- (B) Preference capital
- (C) Equity capital + preference capital
- (D) Equity capital + reference capital + reserves

149. Which one of the following is not an operating expenses?

- (A) Office expenses
- (B) Interest
- (C) Selling overheads
- (D) Postage

150. Which one of the following items is not taken into account while computing current ratio?

- (A) Sundry creditors
- (B) Sundry debtors
- (C) Furniture
- (D) Bank overdraft

148. अंश धारियों की समता पर प्रत्याय की गणना करने में हर होता है-

- (A) समता पूँजी
- (B) अधिमान पूँजी
- (C) समता पूँजी + अधिमान पूँजी
- (D) समता पूँजी + अधिमान पूँजी + संचय

149. निम्नलिखित में से कौन-सा परिचालन व्यय नहीं है?

- (A) कार्यालय व्यय
- (B) ब्याज
- (C) विक्रय उपरिव्यय
- (D) डाक व्यय

150. चालू अनुपात की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे नहीं लिया जाता है-

- (A) विविध लेनदार
- (B) विविध देनदार
- (C) फर्नीचर
- (D) बैंक ओवरड्राफ्ट

—X—

SPACE FOR ROUGH WORK

(34)

B.Com./1100



## परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश

1. परीक्षा स्थल पर आपको केन्द्र अधीक्षक और कक्ष-निरीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना है। यदि आप उनके निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
2. परीक्षा-कक्ष के अन्दर कोई सेल फोन, कैलकुलेटर, पुस्तकें, स्लाइड-स्लू, नोट-बुक या लिखित सामग्री इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है।
3. आपको कक्ष-निरीक्षकों द्वारा प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर-पत्रक (ओ.एम.आर. शीट) दिये जायेंगे। परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष छोड़ने से पहले आपको उत्तर-पत्रक एवं प्रश्न-पुस्तिका कक्ष-निरीक्षक को सौंप देना अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी उन्हें नहीं लौटाता है, तो उसे आयोग्य घोषित कर दिया जायेगा और महाविद्यालय उसके विरुद्ध आगे कार्यवाही करेगा।
4. परीक्षा में यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए या सहायता देते हुए या प्राप्त करते हुए पाया जायेगा तो उसे अयोग्य घोषित किया जायेगा।
5. यदि परीक्षार्थी एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे कोई अंक नहीं दिया जायेगा। इसलिए आपको मात्र एक उपयुक्त उत्तर का ही चयन करना चाहिये।
6. सभी रफ कार्य प्रश्न-पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही किया जायेगा और किसी अन्य कागज पर नहीं। कागज के किसी टुकड़े को रखने की अनुमति नहीं है। आपको प्रश्न-पुस्तिका में मार्जिनों में रफ काम करने, कुछ निशान लगाने या उसमें रेखांकित करने की अनुमति नहीं है।
7. महाविद्यालय सभी परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों की मान्यता एक समान रूप से जांचने की क्रियाविधि को अपनायेगा। यदि पर्याप्त संकेत हैं कि आपका निष्पादन असली नहीं है, तो महाविद्यालय आपके प्राप्तांक निरस्त कर सकता है।
8. कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद कक्ष-निरीक्षक की अनुमति से ही परीक्षा-कक्ष से बाहर जायेगा।